



झाँसी पुलिस

दिनांक-14.07.2021

02 शातिर चोर, चोरी की 05 मोटर साइकिलो व असलहा, कारतूस सहित गिरफ्तार

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री शिवहरी मीणा के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी मोठ डा० प्रदीप कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 13.07.2021 प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार गुप्ता थाना चिरगांव के नेतृत्व में उ०नि० श्री सुरेशचन्द्र तिवारी मय हमराह पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनो की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम दबरा की ओर जाने वाली रास्ता के सामने चिरगांव गुरसंराय मार्ग के नीचे झाड़ियों की तरफ जाने वाले रास्ता पर एक बारगी दविश देकर झाड़ियों की आड़ में रखी हुयी चोरी की 05 मोटर साइकिलों एवं तमंचा देशी 315 बोर व 02 कारतूस सहित अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण के विरूद्ध थाना चिरगांव पर मु०अ०स० 136/21 धारा 411/379/420/467/413 भा.द.वि एवं मु०अ०स०137/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया एवं विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

- ❖ उमाकान्त लोधी पुत्र भगवत लोधी नि० ग्राम नरौल थाना रावतपुरा जिला भिण्ड म०प्र० उम्र करीब 32 वर्ष
- ❖ मनोज कुमार राजपूत पुत्र स्व० काशीराम नि० ग्राम दबरा बुजुर्ग थाना चिरगांव झाँसी उम्र करीब 45 वर्ष

बरामदगी का विवरण: -

- ❖ 1- मो०सा० बुलट इनफील्ड, रंग काला, चेचिंस नं० - 7B361728 ,इंजन नं० - 361728 व आगे की नम्बर प्लेट पर जय ठाकुर बाबा व पीछे के नम्बर प्लेट पर राधे राधे लिखा है ,2- बिना नम्बर प्लेट मो०सा० प्लेटिना, रंग स्लैटी ब्लैक,इंजन नम्बर PFYRJA02042 व चेचिंस नम्बर MD2A76AYOJRA82586 ,3- मो०सा० स्पेलण्डर UP93AS3584, रंग काला, इंजन नम्बर HA10ELC9FO4669, 4- मो०सा० सी०टी० - 100 ,रंग ब्लू ब्लैक पीछे की नम्बर प्लेट पर UP93BA अंकित है ,5- इंजन नम्बर DUZPGH89275 ,मोटर साइकिल स्पेलंडर प्लस UP92W3494 ,रंग काला व चेचिंस नं० MBLHA10CGHHB14086 व इंजन नं० HA10ERHHB15163
- ❖ एक अदद तमंचा देशी 315 बोर व 02 अदद कारतूस 315 बोर 8 mm

पुलिस टीम का विवरण:-

- ❖ उ०नि० श्री सुरेशचन्द्र तिवारी ,उ०नि० श्री राम बहादुर सिंह ,हे०का० 334 सतपाल सिंह ,का० 1887 गौरव यादव ,का० 1079 सन्दीप यादव ,का० 1479 गौतम कुमार ,का० 536 जितेन्द्र कुमार थाना चिरगांव जनपद झाँसी